



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29—सितम्बर 4, 2009 (भाद्रपद 7, 1931)

No. 35]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29—SEPTEMBER 4, 2009 (BHADRA 7, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	943	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	779	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	73	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	2961
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1417	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	5063
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	309
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	943	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	779	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	73	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1417	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2961
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	5063
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	309
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2009

सं. एफ. 7-20/2007 (एमसी)--श्री बी. एस. रामूवालिया, सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग द्वारा सदस्य पद से दिए गए त्याग पत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 की धारा 5(2) के तहत स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5(4) के अंतर्गत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. रघबीर सिंह, पूर्व सचिव, विधायी विभाग, भारत सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

2. उनकी नियुक्ति की अवधि श्री बी. एस. रामूवालिया के कार्यकाल की शेष अवधि तक के लिए होगी जोकि 5.12.2009 तक है और यह डॉ. रघबीर सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

3. चूंकि सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का पद पूर्णकालिक है जिसके लिए वेतन और भत्ते प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं, डॉ. रघबीर सिंह, पूर्व विधि सचिव, भारत सरकार और जो इस समय कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस बाबत एक विवरण भेजेंगे कि किसी अन्य कार्यालय/कार्यालयों में वर्तमान में धारित किसी पद को उन्होंने छोड़ दिया है।

4. डॉ. रघबीर सिंह का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति डॉ. रघबीर सिंह को प्रेषित की जाए।

सुनिल कुमार  
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2009/23/21--श्री शुभ प्रसन्ना, "नतुन बारी", बीएच-167, साल्टलेक, सेक्टर-II, कोलकाता-700091 की अध्यक्षता में पांच सदस्यों सहित यात्री सुविधा समिति को पुनर्गठित करते हुए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 16.07.2009 के समसंख्यक संकल्प के आगे, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने अब विनिश्चय किया है कि श्री रूक्वानुर रहमान, 7बी/एच/13, तिलजला लेन, कोलकाता-700019 भी यात्री सुविधा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. बी. एल. मित्तल सचिव,  
रेलवे बोर्ड

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2009

सं. डीजीईटी-19/5/2006-सी.डी.--श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली के दिनांक 21/24 अगस्त, 1956 के संकल्प संख्या टीआर/ईपी-24/56 (23 अक्टूबर, 2007 तक संशोधित) के आंशिक आशोधन में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् का संघटन, पैरा 5(ख) और (ग) इसके बाद 29 जुलाई, 2009 से निम्नानुसार संशोधित होगा :--

(ख) श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री -- उपाध्यक्ष

(ग) सचिव (श्रम एवं रोजगार) -- सदस्य

आर. के. अहलूवालिया  
अवर सचिव

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 6th August 2009

No. 7-20/2007-(MC)—Consequent upon the acceptance of the resignation tendered by Shri B. S. Ramoowalia from the office of Member, National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) under section 5(2) of the NCMEI Act, 2004 by the competent authority, Central Government, by virtue of the powers vested in it under section 5(4) of the said Act, is pleased to appoint Dr. Raghbir Singh, former Secretary, Legislative Department, Government of India, as Member National Commission for Minority Educational Institutions.

2. The tenure of his appointment will be for the residual term of Shri B. S. Ramoowalia, which is upto 5.12.2009 and will take effect from the date on which Dr. Raghbir Singh assumes office.

3. As the office of Member NCMEI is full time for which the salaries and allowances are prescribed under the relevant rules, Dr. Raghbir Singh, former Law Secretary to the Government of India and presently Chairman of the Copyright Board will furnish a statement of having, relinquished any other office's currently held by him.

4. The Headquarters of Dr. Raghbir Singh will be in New Delhi.

**ORDER**

Ordered also that notification be published in the Gazetted of India for general information.

Ordered also that a copy of notification be communicated to Dr. Raghbir Singh.

**SUNIL KUMAR**  
Joint Secy.

**MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 17th August 2009

No. ERB-I/2009/23/21—Further to Ministry of Railways (Railway Board) Resolution of even number dated 16.07.2009 reconstituting the Passenger Amenities Committee under the Chairmanship of Shri Shuvaprasanna, "Natun Bari", B.H.-167, Saltlake, Sector-II, Kolkata-700091 with five members, Ministry of Railways (Railway Board) have now decided that Shri Rukbanur Rahman, 7B/H/13, Tiljala Lane, Kolkata-700019 will also function as Member to the Passenger Amenities Committee.

**ORDER**

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

**K. B. L. MITTAL, Secretary**  
(Railway Board)

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND TRAINING**

New Delhi, the 6th August 2009

No. DGET-19/5/2006-CD—In partial modification of Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training, New Delhi Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st/24th August 1956. (Amended up to 23rd October, 2007) the composition of the National Council for Vocational Training para 5(b) & (c) shall hereinafter stand amended w.e.f. 29th July, 2009 as under :—

(b) Minister of State for Labour and Employment—Vice Chairman

(c) Secretary (Labour & Employment)—Member

**R. K. AHLUWALIA**  
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009